



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331]
No. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1978/कार्तिक 19, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1978/KARTIKA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

सारणी

(राजस्व विभाग)

(क) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 90.19 के अन्तर्गत सम्मिलित विकलांग (आर्थो-पीडिक) साधन ,

अधिसूचनाएं

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 87.09/12(3) के अन्तर्गत सम्मिलित पीडियंदा कृसियां।

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

[सं. 209 फा. सं. 459/79/78-सीमा शुल्क 5]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th November, 1978

CUSTOMS

सा.फा.नि. 548(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब किसी बाधाग्रस्त या निर्यात शक्ति द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए भारत में उसका आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 61) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि आयातकर्ता, आयात करते समय, सहायक सीमा-शुल्क कलेक्टर को सम्बद्ध राज्य के सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य सेवा निदेशक या किसी सरकारी अस्पताल या मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित सम्बद्ध विशेषज्ञता में विशेषज्ञ से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातकर्ता विशेषज्ञ बाधा या निर्यातता से ग्रस्त है और ऐसा आयात किया गया माल, जिसकी बाधा छूट के लिए दावा किया गया है, उक्त बाधा या निर्यातता पर काबू पाने के लिए आवश्यक है।

G.S.R. 548(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table below, when imported into India by a handicapped or disabled person for his personal use, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under Section 3 of the said Tariff Act, subject to the condition that the importer produces to the Assistant Collector of Customs, at the time of importation, a certificate from the Civil Surgeon or the District Medical Officer or the Administrative Medical Officer or the Director of Health

Services of the concerned State or a Specialist in the concerned Specially attached to a Government hospital or a recognised medical college to the effect that the importer suffers from the particular handicapped or disability and that the imported goods in respect of which the exemption is claimed are essential to overcome the said handicap or disability.

TABLE

- (a) Orthopaedic appliances failing under Heading 90.19 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act;
- (b) Wheel chairs falling under Heading 87.09/12 (3) of the First Schedule to the said Customs Tariff Act.

[No. 209/F. No. 459/79/78-CUS. V.]

सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 549(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पीठल सीमा अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान है कि ऐसे करना लोकीहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96 सीमा-शुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 217 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“218 सं 209, तारीख 10-11-1978”

[सं. 210-का.सं. 459/79/78-सीमा शुल्क-5]

एस. बासु, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96 Customs, date the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 217 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“218 No. 209 dated 10-11-1978”

[No. 210-Customs/78/F. No. 459/79/78-CUS. V.]

S. BASU, Under Secy.